



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 831]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 31, 2015/पौष 10, 1937

No. 831]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 31, 2015/PAUSA 10, 1937

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि.1029 (अ).—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग), नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप नियम (2) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, राजस्थान सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्: -

- (i) ये विनियम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियमावली - 2015 कहलाएंगे।
 - (ii) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली - 1955 की अनुसूची में "राजस्थान" शीर्षक और उसके अन्तर्गत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा - अर्थात्: -

"राजस्थान"

राज्य सरकार के अंतर्गत वरिष्ठ पद	117
पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर	1
पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो, जयपुर	1
अपर पुलिस महानिदेशक - आसूचना, जयपुर	1
अपर पुलिस महानिदेशक - अपराध शाखा, जयपुर	1
अपर पुलिस महानिदेशक - प्रशिक्षण, जयपुर	1
अपर पुलिस महानिदेशक - प्रशासन एवं कानून एवं व्यवस्था, जयपुर	1
अपर पुलिस महानिदेशक - सशस्त्र बटालियन, जयपुर	1

अपर पुलिस महानिदेशक - मुख्यालय, जयपुर	1
अपर पुलिस महानिदेशक - सतर्कता, जयपुर	1
अपर पुलिस महानिदेशक - आतंकवाद रोधी दस्ता और विशेष प्रचालन समूह, जयपुर	1
अपर पुलिस महानिदेशक - राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जयपुर	1
पुलिस आयुक्त - जयपुर	1
पुलिस महानिरीक्षक - जयपुर रेंज, जयपुर	1
पुलिस महानिरीक्षक - बीकानेर रेंज, बीकानेर	1
पुलिस महानिरीक्षक - भरतपुर रेंज, भरतपुर	1
पुलिस महानिरीक्षक - जोधपुर रेंज जोधपुर	1
पुलिस महानिरीक्षक - अजमेर रेंज	1
पुलिस महानिरीक्षक - कोटा रेंज, कोटा	1
पुलिस महानिरीक्षक - उदयपुर रेंज, उदयपुर	1
पुलिस महानिरीक्षक - अपराध शाखा, जयपुर	1
पुलिस महानिरीक्षक - सतर्कता, जयपुर	1
पुलिस महानिरीक्षक - विशेष प्रचालन समूह, जयपुर	1
पुलिस महानिरीक्षक - मानवाधिकार एवं नागरिक अधिकार संरक्षण, जयपुर	1
पुलिस महानिरीक्षक - आसूचना, जयपुर	1
पुलिस महानिरीक्षक - सुरक्षा, जयपुर	1
पुलिस महानिरीक्षक - कार्मिक, जयपुर	1
पुलिस महानिरीक्षक - सशस्त्र बटालियन -1 जयपुर	1
पुलिस महानिरीक्षक - कानून एवं व्यवस्था प्रशासन, जयपुर	1
पुलिस महानिरीक्षक - रेलवे, जयपुर	1
निदेशक - आरपीए, जयपुर	1
पुलिस महानिरीक्षक - योजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण, जयपुर	1
पुलिस महानिरीक्षक - दूर संचार, जयपुर	1
पुलिस महानिरीक्षक - भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो-1, जयपुर	1
पुलिस आयुक्त - जोधपुर	1
उप पुलिस महानिरीक्षक - सीआईडी (सावी), जयपुर	1
उप पुलिस महानिरीक्षक - अपराध शाखा, जयपुर	1
उप पुलिस महानिरीक्षक - आतंकवाद रोधी दस्ता, जयपुर	1
उप पुलिस महानिरीक्षक - विशेष प्रचालन समूह, जयपुर	1
उप पुलिस महानिरीक्षक - आसूचना, जयपुर	1
उप पुलिस महानिरीक्षक - सुरक्षा, जयपुर	1
उप पुलिस महानिरीक्षक - कार्मिक, जयपुर	1
उप पुलिस महानिरीक्षक - सशस्त्र बटालियन -I जयपुर	1
उप पुलिस महानिरीक्षक - सशस्त्र बटालियन -II जयपुर	1
उप पुलिस महानिरीक्षक - कानून एवं व्यवस्था प्रशासन, जयपुर	1
उप पुलिस महानिरीक्षक - प्रशिक्षण, जयपुर	1

उप पुलिस महनिरीक्षक - राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर	1
उप पुलिस महनिरीक्षक - आर पी टी सी, जोधपुर	1
उप पुलिस महनिरीक्षक - भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो-1, जयपुर	1
उप पुलिस महनिरीक्षक - भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो-II जयपुर	1
उप पुलिस महनिरीक्षक - भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो उदयपुर	1
अपर पुलिस आयुक्त (i)- जयपुर	1
अपर पुलिस आयुक्त (ii)- जयपुर	1
उप पुलिस आयुक्त - (उत्तर)जयपुर पुलिस	1
उप पुलिस आयुक्त - (दक्षिण), जयपुर पुलिस	1
उप पुलिस आयुक्त - (पूर्व), जयपुर पुलिस	1
उप पुलिस आयुक्त - (मुख्यालय), जयपुर पुलिस	1
उप पुलिस आयुक्त - (यातायात), जयपुर पुलिस	1
पुलिस अधीक्षक - जयपुर (ग्रामीण)	1
पुलिस अधीक्षक - अलवर	1
पुलिस अधीक्षक - दौसा	1
पुलिस अधीक्षक - सीकर	1
पुलिस अधीक्षक - झुंझनू	1
पुलिस अधीक्षक - भरतपुर	1
पुलिस अधीक्षक - सवाई माधोपुर	1
पुलिस अधीक्षक - धौलपुर	1
पुलिस अधीक्षक - करौली	1
पुलिस अधीक्षक - अजमेर	1
पुलिस अधीक्षक - नागौर	1
पुलिस अधीक्षक - भीलवाड़ा	1
पुलिस अधीक्षक - टोंक	1
पुलिस अधीक्षक - कोटा सिटी	1
पुलिस अधीक्षक - कोटा, ग्रामीण	1
पुलिस अधीक्षक - झालावाड़	1
पुलिस अधीक्षक - बुन्दी	1
पुलिस अधीक्षक - बारण	1
डीसीपी - मुख्यालय एवं यातायात पुलिस आयुक्त का कार्यालय, जोधपुर	1
पुलिस अधीक्षक - जोधपुर ग्रामीण	1
पुलिस अधीक्षक - जालौर	1
पुलिस अधीक्षक - पाली	1
पुलिस अधीक्षक - जैसलमेर	1
पुलिस अधीक्षक - बाड़मेर	1
पुलिस अधीक्षक - सिरोही	1
पुलिस अधीक्षक - उदयपुर	1

	पुलिस अधीक्षक - डूंगरपुर	1
	पुलिस अधीक्षक - चित्तौड़गढ़	1
	पुलिस अधीक्षक - राजसमंद	1
	पुलिस अधीक्षक - बांसवाड़ा	1
	पुलिस अधीक्षक - प्रतापगढ़	1
	पुलिस अधीक्षक - बीकानेर	1
	पुलिस अधीक्षक - हनुमानगढ़	1
	पुलिस अधीक्षक - गंगानगर	1
	पुलिस अधीक्षक - चुरू	1
	पुलिस अधीक्षक - जीआरपी, अजमेर	1
	पुलिस अधीक्षक - जीआरपी (एन) जोधपुर	1
	पुलिस अधीक्षक - सीबी मानवाधिकार एवं कमजोर वर्ग, जयपुर	1
	पुलिस अधीक्षक - अपराध शाखा (अन्वेषण), जयपुर	1
	पुलिस अधीक्षक - सतर्कता, जयपुर	1
	पुलिस अधीक्षक - विशेष प्रचालन समूह, जयपुर	1
	पुलिस अधीक्षक - आतंकवाद रोधी दस्ता, जयपुर	1
	पुलिस अधीक्षक - आसूचना, जयपुर	1
	पुलिस अधीक्षक - आसूचना, जोधपुर	1
	पुलिस अधीक्षक - सुरक्षा, जयपुर	1
	उप निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर	1
	प्रधान, पीटीएस, किशनगढ़, अजमेर	1
	कमांडेंट, द्वितीय बटालियन आरएसी, कोटा	1
	कमांडेंट, पाँचवी बटालियन आरएसी, कोटा	1
	कमांडेंट, साँतवीं बटालियन आरएसी, कोटा	1
	कमांडेंट, आठवीं बटालियन आरएसी, कोटा	1
	कमांडेंट, नौवीं बटालियन आरएसी, कोटा	1
	कमांडेंट, दसवीं बटालियन आरएसी, कोटा	1
	पुलिस अधीक्षक (I) आतंकवादरोधी ब्यूरो, जयपुर	1
	पुलिस अधीक्षक (II) आतंकवादरोधी ब्यूरो, जयपुर	1
	पुलिस अधीक्षक - कानून एवं व्यवस्था पुलिस मुख्यालय, जयपुर	1
	डीसीपी - पश्चिम, जयपुर पुलिस	1
	डीसीपी - जोधपुर पूर्व, जोधपुर	1
	पुलिस अधीक्षक - (I) सीआईडी, सी बी, जयपुर	1
	पुलिस अधीक्षक - आसूचना, कोटा	1
1.	कुल बरिष्ठ झूटी पद	
2.	केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व (उपर्युक्त मद 1 के 40% से अधिक नहीं)	117
3.	राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व (उपर्युक्त मद 1 के 25% से अधिक नहीं)	46
4.	प्रशिक्षण रिजर्व (उपर्युक्त मद 1 के 3.5% से अधिक नहीं)	29
5.	छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व (उपर्युक्त मद 1 के 16.5% से अधिक नहीं)	04
6.	भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमावली - 1954 के नियम 8 के अन्तर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद (उपर्युक्त मद 1-2-3 और 4 के 33 1/3% से अधिक नहीं)	19

7.	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मर्दें 1+2+3+4+5 -6)	65
	कुल प्राधिकृत पद संख्या	150
		215"

[फा. सं. 11052/05/2015 -अ.भा.से. -II-क]

राजीव जैन, अवर सचिव

टिप्पणी 1: इस अधिसूचना के जारी होने के पूर्व - राजस्थान के भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग की कुल प्राधिकृत संख्या 205 थी।

टिप्पणी 2: प्रधान विनियम दिनांक 22.10.1955 की एस.आर.ओ. सं. 3350 - के अन्तर्गत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात् - राजस्थान संवर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा इन्हें संशोधित किया गया था: -

क्रम संख्या	सा.का.नि. संख्या	तारीख
1.	70 अ	10.2.1976
2.	503	10.4.1976
3.	1333	18.09.1976
4.	591 अ	25.08.1977
5.	1504	23.12.1978
6.	399 अ	09.07.1980
7.	509	16.07.1983
8.	674	17.9.1983
9.	102	20.2.1988
10.	622	26.10.1991
11.	118	27.2.1993
12.	320 अ	31.3.1995
13.	344	4.10.1997
14.	710 अ	31.12.1997
15.	196 अ	20.4.1998
16.	150 अ	10.3.2006
17.	192 अ	24.3.2009
18.	625 अ	23.7.2010

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2015

G.S.R. 1029(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of **Rajasthan**, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

- (1) These Regulations may be called the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Fourth Amendment Regulations, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, in the schedule, for the heading "Rajasthan" and the entries occurring thereunder, the following shall be substituted namely:—

“Rajasthan

Senior Duty Posts under the State Government		117
DGP, Rajasthan, Jaipur		1
DGP, Anti Corruption Bureau, Jaipur		1
ADGP, Intelligence, Jaipur		1
ADGP, Crime Branch, Jaipur		1
ADGP, Training, Jaipur		1
ADGP, Administration and Law & order, Jaipur		1
ADGP, Armed Battalions, Jaipur		1
ADGP, Headquarters, Jaipur		1
ADGP, Vigilance, Jaipur		1
ADGP, Anti Terrorist Squad & Special Operation Group, Jaipur		1
ADGP, State Crime Records Bureau, Jaipur		1
Police Commissioner, Jaipur		1
IGP- Jaipur Range, Jaipur		1
IGP, Bikaner Range, Bikaner		1
IGP, Bharatpur Range, Bharatpur		1
IGP, Jodhpur Range, Jodhpur		1
IGP, Ajmer range,		1
IGP – Kota Range, Kota		1
IGP – Udaipur Range, Udaipur		1
IGP – Crime Branch, Jaipur		1
IGP – Vigilance, Jaipur		1
IGP – Special Operation Group, Jaipur		1
IGP - Human Rights and Protection of Civil Rights, Jaipur		1
IGP – Intelligence, Jaipur		1
IGP – Security, Jaipur		1
IGP – Personnel, Jaipur		1
IGP – Armed Battalion-I, Jaipur		1
IGP – Law & Order, Administration, Jaipur		1
IGP – Railways, Jaipur		1
Director - RPA, Jaipur		1
IGP – Planning, Modernization & Welfare, Jaipur		1
IGP – Telecommunication, Jaipur		1
IGP – Anti-Corruption Bureau-I, Jaipur		1
Police Commissioner, Jodhpur		1
DIGP – CID (CB), Jaipur		1
DIGP – Crime Branch, Jaipur		1
DIGP – Anti Terrorists Squad, Jaipur		1
DIGP – Special Operation Group, Jaipur		1
DIGP – Intelligence, Jaipur		1
DIGP – Security, Jaipur		1
DIGP – Personnel, Jaipur		1
DIGP – Armed Battalion-I, Jaipur		1
DIGP – Armed Battalion-II, Jaipur		1
DIGP – Law & Order, Jaipur		1
DIGP – Training, Jaipur		1
DIGP – Rajasthan Police Academy, Jaipur		1
DIGP – RPTC, Jodhpur		1
DIGP – Anti Corruption Bureau-I, Jaipur		1
DIGP – Anti Corruption Bureau-II, Jaipur		1
DIGP – Anti Corruption Bureau, Udaipur		1
Additional Commissioner of Police (I) Jaipur		1
Additional Commissioner of Police (II) Jaipur		1

	DCP – (North), Jaipur Police	1
	DCP – (South), Jaipur Police	1
	DCP – (East), Jaipur Police	1
	DCP – (Headquarters), Jaipur Police	1
	DCP – (Traffic), Jaipur Police	1
	SP – Jaipur Rural	1
	SP – Alwar	1
	SP – Dausa	1
	SP – Sikar	1
	SP – Jhunjhunu	1
	SP – Bharatpur	1
	SP – Sawai Madhopur	1
	SP – Dholpur	1
	SP – Karauli	1
	SP – Ajmer	1
	SP – Nagaur	1
	SP – Bhilwara	1
	SP – Tonk	1
	SP – Kota City	1
	SP – Kota Rural	1
	SP – Jhalawar	1
	SP – Bundi	1
	SP – Baran	1
	DCP – Headquarters & Traffic, The Office of Commissioner of Police, Jodhpur	1
	SP – Jodhpur Rural	1
	SP - Jalore	1
	SP - Pali	1
	SP – Jaisalmer	1
	SP – Barmer	1
	SP – Sirohi	1
	SP – Udaipur	1
	SP – Dangarpur	1
	SP – Chittorgarh	1
	SP – Rajsamand	1
	SP – Banswara	1
	SP – Pratapgarh	1
	SP – Bikaner	1
	SP – Hanumangarh	1
	SP – Ganganagar	1
	SP – Churu	1
	SP – GRP Ajmer	1
	SP – GRP (N) Jodhpur	1
	SP – CB Human Rights & Weaker Section, Jaipur	1
	SP – Crime Branch (Investigation), Jaipur	1
	SP – Vigilance, Jaipur	1
	SP – Special Operation Group, Jaipur	1
	SP – Anti Terrorist Squad, Jaipur	1
	SP – Intelligence, Jaipur	1
	SP – Intelligence, Jodhpur	1
	SP- Security, Jaipur	1
	Deputy Director, Rajasthan Police Academy, Jaipur	1
	Principal, PTS Kishangarh, Ajmer	1
	Commandant, 2 nd Battalion RAC, Kota	1
	Commandant, 5 th Battalion RAC, Jaipur	1
	Commandant, 7 th Battalion RAC, BPR	1
	Commandant, 8 th Battalion RAC, New Delhi	1
	Commandant, 9 th Battalion RAC, Tonk	1
	Commandant, 10 th Battalion RAC (IR), Bikaner	1

	SP (I) Anti Corruption Bureau, Jaipur	1
	SP (II) Anti Corruption Bureau, Jaipur	1
	SP – Law & Order PHQ, Jaipur	1
	DCP – West, Jaipur Police	1
	DCP – Jodhpur East, Jodhpur	1
	SP – (I) CID, CB, Jaipur	1
	SP – Intelligence, Kota	1
1	Total Senior Duty Posts	117
2	CDR not exceeding 40% of item 1 above	46
3	SDR not exceeding 25% of item 1 above	29
4	TR not exceeding 3.5% of item 1 above	4
5	LR and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of Item 1 above	19
6	Posts to be filled by promotion under Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33 1/3% of Item 1,2,3 & 4 above	65
7	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)	150
	Total Authorized Strength	215”

[F. No. 11052/05/2015- AIS-II (A)]
RAJIV JAIN, Under Secy.

Note (1): Prior to issue of this notification, the Total Authorized Strength of Rajasthan Cadre was 205.

Note (2): The principal regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3350 dated 22nd October 1955. These were subsequently amended in respect of the Rajasthan Cadre by the following GSR Nos. and dates:

Sl.No.	GSR Nos.	DATE	Sl.No.	GSR Nos.	DATE
1	70E	10.02.1976	10	622	26.10.1991
2	503	10.04.1976	11	118	27.02.1993
3	1333	18.09.1976	12	320E	31.03.1995
4	591E	25.08.1977	13	344	04.10.1997
5	1504	23.12.1978	14	740E	31.12.1997
6	399E	09.07.1980	15	196E	20.04.1998
7	509	16.07.1983	16	150E	10.03.2006
8	674	17.09.1983	17	192E	24.03.2009
9	102	20.02.1988	18	625E	23.07.2010

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2015

सा. का. नि. 1030(अ).—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, राजस्थान राज्य सरकार से परामर्श करके भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (i) इन नियमों को भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियमावली, 2015 कहा जाएगा।

(ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में :-

(क) अनुसूची II में – भाग क में राज्य सरकारों के अंतर्गत भारतीय पुलिस सेवा में समय वेतनमान से ऊपर के पदों की तालिका में, प्रथम कॉलम में की राजस्थान प्रविष्टि और दूसरे कॉलम में तदनुसूची प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, :-

"राजस्थान

पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर	80,000/- रुपए (नियत)
पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो, जयपुर	एच.ए.जी.+75500-(वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3%)-80000
अपर पुलिस महानिदेशक - आसूचना, जयपुर	एच.ए.जी.+67000-(वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3%)-79,000
अपर पुलिस महानिदेशक, - अपराध शाखा (जयपुर)	एच.ए.जी.+67000-(वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3%)-79,000
अपर पुलिस महानिदेशक - प्रशिक्षण, जयपुर	एच.ए.जी.+67000-(वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3%)-79,000
अपर पुलिस महानिदेशक - प्रशासन एवं कानून एवं व्यवस्था जयपुर	एच.ए.जी.+67000-(वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3%)-79,000
अपर पुलिस महानिदेशक - सशस्त्र बटालियन, जयपुर	एच.ए.जी.+67000-(वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3%)-79,000
अपर पुलिस महानिदेशक - मुख्यालय, जयपुर	एच.ए.जी.+67000-(वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3%)-79,000
अपर पुलिस महानिदेशक - सतर्कता, जयपुर	एच.ए.जी.+67000-(वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3%)-79,000
अपर पुलिस महानिदेशक - आतंकवाद रोधी दस्ता और विशेष प्रचालन समूह, जयपुर	एच.ए.जी.+67000-(वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3%)-79,000
अपर पुलिस महानिदेशक - राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जयपुर	एच.ए.जी.+67000-(वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3%)-79,000
पुलिस आयुक्त - जयपुर	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 10,000/-
पुलिस महानिरीक्षक - जयपुर रेंज, जयपुर	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 10,000/-
पुलिस महानिरीक्षक - बीकानेर रेंज, बीकानेर	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 10,000/-
पुलिस महानिरीक्षक - भरतपुर रेंज, भरतपुर	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 10,000/-
पुलिस महानिरीक्षक - जोधपुर रेंज जोधपुर	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 10,000/-
पुलिस महानिरीक्षक - अजमेर रेंज	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 10,000/-
पुलिस महानिरीक्षक - कोटा रेंज, कोटा	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 10,000/-
पुलिस महानिरीक्षक - उदयपुर रेंज, उदयपुर	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 10,000/-
पुलिस महानिरीक्षक - अपराध शाखा, जयपुर	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 10,000/-
पुलिस महानिरीक्षक - सतर्कता, जयपुर	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 10,000/-
पुलिस महानिरीक्षक - विशेष प्रचालन समूह, जयपुर	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 10,000/-
पुलिस महानिरीक्षक - मानवाधिकार एवं नागरिक अधिकार संरक्षण, जयपुर	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 10,000/-
पुलिस महानिरीक्षक - आसूचना, जयपुर	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 10,000/-
पुलिस महानिरीक्षक - सुरक्षा, जयपुर	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 10,000/-
पुलिस महानिरीक्षक - कार्मिक, जयपुर	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 10,000/-
पुलिस महानिरीक्षक - सशस्त्र बटालियन -1 जयपुर	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 10,000/-
पुलिस महानिरीक्षक - कानून एवं व्यवस्था प्रशासन, जयपुर	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 10,000/-
पुलिस महानिरीक्षक - रेलवे, जयपुर	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 10,000/-
निदेशक - आरपीए, जयपुर	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 10,000/-
पुलिस महानिरीक्षक- योजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण, जयपुर	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 10,000/-
पुलिस महानिरीक्षक - दूर संचार, जयपुर	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 10,000/-
पुलिस महानिरीक्षक - भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो-1, जयपुर	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 10,000/-
पुलिस आयुक्त - जोधपुर	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 10,000/-
उप पुलिस महानिरीक्षक - सीआईडी (सी. बी), जयपुर	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 8,900/-
उप पुलिस महानिरीक्षक - अपराध शाखा, जयपुर	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 8,900/-

उप पुलिस महनिरीक्षक - - आतंकवाद रोधी दस्ता, जयपुर	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 8,900/-
उप पुलिस महनिरीक्षक - विशेष प्रचालन समूह, जयपुर	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 8,900/-
उप पुलिस महनिरीक्षक - आसूचना, जयपुर	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 8,900/-
उप पुलिस महनिरीक्षक - सुरक्षा, जयपुर	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 8,900/-
उप पुलिस महनिरीक्षक - कार्मिक, जयपुर	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 8,900/-
उप पुलिस महनिरीक्षक - सशस्त्र बटालियन -I जयपुर	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 8,900/-
उप पुलिस महनिरीक्षक - सशस्त्र बटालियन -II जयपुर	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 8,900/-
उप पुलिस महनिरीक्षक - कानून एवं व्यवस्था प्रशासन, जयपुर	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 8,900/-
उप पुलिस महनिरीक्षक - प्रशिक्षण, जयपुर	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 8,900/-
उप पुलिस महनिरीक्षक - राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 8,900/-
उप पुलिस महनिरीक्षक -आर पी टी सी, जोधपुर	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 8,900/-
उप पुलिस महनिरीक्षक - भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो-1, जयपुर	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 8,900/-
उप पुलिस महनिरीक्षक - भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो-II जयपुर	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 8,900/-
उप पुलिस महनिरीक्षक - भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो उदयपुर	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 8,900/-
अपर पुलिस आयुक्त (i)- जयपुर	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 8,900/-
अपर पुलिस आयुक्त (ii)- जयपुर	वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन रु. 8,900/-"

(ख) अनुसूची -II - खंड ख में राज्य सरकार के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में - वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ता पाने वाले पदों सहित - वेतन लेने वाले पदों में राजस्थान प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा - अर्थात् -

“उप पुलिस आयुक्त - (उत्तर) जयपुर पुलिस
उप पुलिस आयुक्त - (दक्षिण), जयपुर पुलिस
उप पुलिस आयुक्त - (पूर्व) जयपुर पुलिस
उप पुलिस आयुक्त - (मुख्यालय), जयपुर पुलिस
उप पुलिस आयुक्त - (यातायात), जयपुर पुलिस
पुलिस अधीक्षक - जयपुर (ग्रामीण)
पुलिस अधीक्षक - अलवर
पुलिस अधीक्षक - दौसा
पुलिस अधीक्षक - सीकर
पुलिस अधीक्षक - झुंझुन
पुलिस अधीक्षक - भरतपुर
पुलिस अधीक्षक - सवाई माधोपुर
पुलिस अधीक्षक - धौलपुर
पुलिस अधीक्षक - करौली
पुलिस अधीक्षक - अजमेर
पुलिस अधीक्षक - नागौर
पुलिस अधीक्षक - भीलवाड़ा
पुलिस अधीक्षक - टोंक
पुलिस अधीक्षक - कोटा सिटी
पुलिस अधीक्षक - कोटा, ग्रामीण
पुलिस अधीक्षक - झालावाड़

पुलिस अधीक्षक - बुन्दी
पुलिस अधीक्षक - बारण
डीसीपी - मुख्यालय एवं यातायात पुलिस आयुक्त का कार्यालय, जोधपुर
पुलिस अधीक्षक - जोधपुर ग्रामीण
पुलिस अधीक्षक - जालौर
पुलिस अधीक्षक - पाली
पुलिस अधीक्षक - जैसलमेर
पुलिस अधीक्षक - बाड़मेर
पुलिस अधीक्षक -सिरोही
पुलिस अधीक्षक - उदयपुर
पुलिस अधीक्षक - डूंगरपुर
पुलिस अधीक्षक - चित्तौड़गढ़
पुलिस अधीक्षक - राजसमंद
पुलिस अधीक्षक - बांसवाड़ा
पुलिस अधीक्षक - प्रतापगढ़
पुलिस अधीक्षक - बीकानेर
पुलिस अधीक्षक - हनुमानगढ़
पुलिस अधीक्षक - गंगानगर
पुलिस अधीक्षक - चुरू
पुलिस अधीक्षक - जीआरपी, अजमेर
पुलिस अधीक्षक - जीआरपी (एन) जोधपुर
पुलिस अधीक्षक - सीवी मानवाधिकार एवं कमजोर वर्ग जयपुर
पुलिस अधीक्षक - क्राइम ब्रांच (अन्वेषण), जयपुर
पुलिस अधीक्षक - सतर्कता, जयपुर
पुलिस अधीक्षक - विशेष प्रचालन समूह, जयपुर
पुलिस अधीक्षक - आतंकवाद रोधी दस्ता, जयपुर
पुलिस अधीक्षक - आसूचना, जयपुर
पुलिस अधीक्षक - आसूचना, जोधपुर
पुलिस अधीक्षक - सुरक्षा, जयपुर
उप निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर
प्रधान, पीटीएस, किशनगढ़, अजमेर
कमांडेंट, द्वितीय बटालियन आरएसी, कोटा
कमांडेंट, पाँचवी बटालियन आरएसी, कोटा
कमांडेंट, साँतवीं बटालियन आरएसी, कोटा
कमांडेंट, आठवीं बटालियन आरएसी, कोटा
कमांडेंट, नौवीं बटालियन आरएसी, कोटा
कमांडेंट, दसवीं बटालियन आरएसी, कोटा
पुलिस अधीक्षक आतंकवादरोधी ब्यूरो, (I) जयपुर
पुलिस अधीक्षक आतंकवादरोधी ब्यूरो, (II) जयपुर

पुलिस अधीक्षक - कानून एवं व्यवस्था पुलिस मुख्यालय, जयपुर
डीसीपी – पश्चिम, जयपुर पुलिस
डीसीपी – जोधपुर पूर्व, जोधपुर
पुलिस अधीक्षक – (I) सीआईडी, सी वी, जयपुर
पुलिस अधीक्षक – आसूचना, कोटा”

[फा. सं. 11052/05/2015 -अ.भा.से. -II-ख]

राजीव जैन, अवर सचिव

टिप्पणी : - मुख्य नियम भारत के असाधारण राजपत्र में सा.का.नि. सं. 213(ई) दिनांक 20.03.2007 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्नलिखित सा.का.नि. और संख्या द्वारा संशोधित किए गए।

क्रम सं.	जीएसआर सं.	प्रकाशन की तारीख	क्रम सं.	जीएसआर सं.	प्रकाशन की तारीख	क्रम सं.	जीएसआर सं.	प्रकाशन की तारीख
1	23(अ)	10.01.2008	14	432(अ)	20.05.2010	27	55(अ)	31.01.2013
2	665(अ)	19.09.2008	15	434(अ)	20.05.2010	28	104(अ)	18.02.2013
3	123(अ)	15.04.2009	16	451(अ)	26.05.2010	29	602(अ)	06.09.2013
4	542(अ)	21.07.2009	17	689(अ)	19.08.2010	30	604(अ)	06.09.2013
5	572(अ)	13.08.2009	18	836(अ)	13.10.2010	31	45(अ)	22.01.2014
6	820	12.11.2009	19	899(अ)	09.11.2010	32	47(अ)	22.01.2014
7	72(अ)	10.02.2010	20	954(अ)	06.12.2010	33	302(अ)	29.04.2014
8	102(अ)	25.02.2010	21	920(अ)	30.12.2011	34	384(अ)	06.06.2014
9	191(अ)	12.03.2010	22	922(अ)	30.12.2011	35	512(अ)	18.07.2014
10	298(अ)	08.04.2010	23	94(अ)	16.02.2012	36	928(अ)	30.12.2014
11	397(अ)	11.05.2010	24	115(अ)	28.03.2012	37	657(अ)	25.08.2015
12	404(अ)	13.05.2010	25	325(अ)	26.04.2012			
13	413(अ)	17.05.2010	26	941(अ)	28.12.2012			

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2015

G.S.R.1030 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 2007, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) Fourth Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Indian Police Service (Pay) Rules, 2007, in schedule II,—

in Part A relating to posts carrying pay above the senior scale of pay of the Indian Police Service under the State Governments, in the table, for the entry “Rajasthan” occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:—

“RAJASTHAN

DGP, Rajasthan, Jaipur	Rs.80000/-(fixed)
DGP, Anti Corruption Bureau, Jaipur	HAG+75500 (annual increment @ 3%) 80,000/-
ADGP, Intelligence, Jaipur	HAG 67000/-(annual increment @ 3%) 79,000/-
ADGP, Crime Branch, Jaipur	HAG 67000/-(annual increment @ 3%) 79,000/-
ADGP, Training, Jaipur	HAG 67000/-(annual increment @ 3%) 79,000/-
ADGP, Administration and Law & order, Jaipur	HAG 67000/-(annual increment @ 3%) 79,000/-
ADGP, Armed Battalions, Jaipur	HAG 67000/-(annual increment @ 3%) 79,000/-

ADGP, Headquarters, Jaipur	HAG 67000/-(annual increment @ 3%) 79,000/-
ADGP, Vigilance, Jaipur	HAG 67000/-(annual increment @ 3%) 79,000/-
ADGP, Anti Terrorist Squad & Special Operation Group, Jaipur	HAG 67000/-(annual increment @ 3%) 79,000/-
ADGP, State Crime Records Bureau, Jaipur	HAG 67000/-(annual increment @ 3%) 79,000/-

Police Commissioner, Jaipur	PB-4+ GP Rs.10,000/-
IGP- Jaipur Range, Jaipur	PB-4+ GP Rs.10,000/-
IGP, Bikaner Range, Bikaner	PB-4+ GP Rs.10,000/-
IGP, Bharatpur Range, Bharatpur	PB-4+ GP Rs.10,000/-
IGP, Jodhpur Range, Jodhpur	PB-4+ GP Rs.10,000/-
IGP, Ajmer range,	PB-4+ GP Rs.10,000/-
IGP – Kota Range, Kota	PB-4+ GP Rs.10,000/-
IGP – Udaipur Range, Udaipur	PB-4+ GP Rs.10,000/-
IGP – Crime Branch, Jaipur	PB-4+ GP Rs.10,000/-
IGP – Vigilance, Jaipur	PB-4+ GP Rs.10,000/-
IGP – Special Operation Group, Jaipur	PB-4+ GP Rs.10,000/-
IGP - Human Rights and Protection of Civil Rights, Jaipur	PB-4+ GP Rs.10,000/-
IGP – Intelligence, Jaipur	PB-4+ GP Rs.10,000/-
IGP – Security, Jaipur	PB-4+ GP Rs.10,000/-
IGP – Personnel, Jaipur	PB-4+ GP Rs.10,000/-
IGP – Armed Battalion-I, Jaipur	PB-4+ GP Rs.10,000/-
IGP – Law & Order, Administration, Jaipur	PB-4+ GP Rs.10,000/-
IGP – Railways, Jaipur	PB-4+ GP Rs.10,000/-
Director - RPA, Jaipur	PB-4+ GP Rs.10,000/-
IGP – Planning, Modernization & Welfare, Jaipur	PB-4+ GP Rs.10,000/-
IGP – Telecommunication, Jaipur	PB-4+ GP Rs.10,000/-
IGP – Anti-Corruption Bureau-I, Jaipur	PB-4+ GP Rs.10,000/-
Police Commissioner, Jodhpur	PB-4+ GP Rs.10,000/-
DIGP – CID (CB), Jaipur	PB4+ GP Rs.8,900/-
DIGP – Crime Branch, Jaipur	PB4+ GP Rs.8,900/-
DIGP – Anti Terrorists Squad, Jaipur	PB4+ GP Rs.8,900/-
DIGP – Special Operation Group, Jaipur	PB4+ GP Rs.8,900/-
DIGP – Intelligence, Jaipur	PB4+ GP Rs.8,900/-
DIGP – Security, Jaipur	PB4+ GP Rs.8,900/-
DIGP – Personnel, Jaipur	PB4+ GP Rs.8,900/-
DIGP – Armed Battalion-I, Jaipur	PB4+ GP Rs.8,900/-
DIGP – Armed Battalion-II, Jaipur	PB4+ GP Rs.8,900/-
DIGP – Law & Order, Jaipur	PB4+ GP Rs.8,900/-
DIGP – Training, Jaipur	PB4+ GP Rs.8,900/-
DIGP – Rajasthan Police Academy, Jaipur	PB4+ GP Rs.8,900/-
DIGP – RPTC, Jodhpur	PB4+ GP Rs.8,900/-
DIGP – Anti Corruption Bureau-I, Jaipur	PB4+ GP Rs.8,900/-
DIGP – Anti Corruption Bureau-II, Jaipur	PB4+ GP Rs.8,900/-
DIGP – Anti Corruption Bureau, Udaipur	PB4+ GP Rs.8,900/-
Additional Commissioner of Police (I) Jaipur	PB4+ GP Rs.8,900/-
Additional Commissioner of Police (II) Jaipur	PB4+ GP Rs.8,900/-

(b) in Part B relating to posts carrying pay in the senior scale of the Indian Police Service under the State Governments including posts carrying special allowance in addition to pay, for the entries occurring under 'Rajasthan' the following shall be substituted in the table,–

“DCP – (North), Jaipur Police
DCP – (South), Jaipur Police
DCP – (East), Jaipur Police
DCP – (Headquarters), Jaipur Police
DCP – (Traffic), Jaipur Police

SP – Jaipur Rural
SP – Alwar
SP – Dausa
SP – Sikar
SP – Jhunjhunu
SP – Bharatpur
SP – Sawai Madhopur
SP – Dholpur
SP – Karauli
SP – Ajmer
SP – Nagaur
SP – Bhilwara
SP – Tonk
SP – Kota City
SP – Kota Rural
SP – Jhalawar
SP – Bundi
SP – Baran
DCP – Headquarters & Traffic, The Office of Commissioner of Police, Jodhpur
SP – Jodhpur Rural
SP - Jalore
SP - Pali
SP – Jaisalmer
SP – Barmer
SP – Sirohi
SP – Udaipur
SP – Dungarpur
SP – Chittorgarh
SP – Rajsamand
SP – Banswara
SP – Pratapgarh
SP – Bikaner
SP – Hanumangarh
SP – Ganganagar
SP – Churu
SP – GRP Ajmer
SP – GRP (N) Jodhpur
SP – CB Human Rights & Weaker Section, Jaipur
SP – Crime Branch (Investigation), Jaipur
SP – Vigilance, Jaipur
SP – Special Operation Group, Jaipur
SP – Anti Terrorist Squad, Jaipur
SP – Intelligence, Jaipur
SP – Intelligence, Jodhpur
SP- Security, Jaipur
Deputy Director, Rajasthan Police Academy, Jaipur
Principal, PTS Kishangarh, Ajmer
Commandant, 2nd Battalion RAC, Kota
Commandant, 5th Battalion RAC, Jaipur
Commandant, 7th Battalion RAC, BPR
Commandant, 8th Battalion RAC, New Delhi
Commandant, 9th Battalion RAC, Tonk
Commandant, 10th Battalion RAC (IR), Bikaner
SP (I) Anti Corruption Bureau, Jaipur

SP (II) Anti Corruption Bureau, Jaipur
SP – Law & Order PHQ, Jaipur
DCP – West, Jaipur Police
DCP – Jodhpur East, Jodhpur
SP – (I) CID, CB, Jaipur
SP – Intelligence, Kota*

[F. No. 11052/05/2015- AIS-II (B)]

RAJIV JAIN, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Extraordinary, Gazette of India, vide G.S.R. number 213(E), dated 20.03.2007 and subsequently amended vide following G.S.R. numbers and dates:—

Sl. No.	G.S.R. No.	Date of Publication	Sl. No.	G.S.R. No.	Date of Publication	Sl. No.	G.S.R. No.	Date of Publication
1	23(E)	10.01.2008	14	432(E)	20.05.2010	27	55(E)	31.01.2013
2	665(E)	19.09.2008	15	434(E)	20.05.2010	28	104(E)	18.02.2013
3	123(E)	15.04.2009	16	451(E)	26.05.2010	29	602(E)	06.09.2013
4	542(E)	21.07.2009	17	689(E)	19.08.2010	30	604(E)	06.09.2013
5	572(E)	13.08.2009	18	836(E)	13.10.2010	31	45(E)	22.01.2014
6	820	12.11.2009	19	899(E)	09.11.2010	32	47(E)	22.01.2014
7	72(E)	10.02.2010	20	954(E)	06.12.2010	33	302(E)	29.04.2014
8	102(E)	25.02.2010	21	920(E)	30.12.2011	34	384(E)	06.06.2014
9	191(E)	12.03.2010	22	922(E)	30.12.2011	35	512(E)	18.07.2014
10	298(E)	08.04.2010	23	94(E)	16.02.2012	36	928(E)	30.12.2014
11	397(E)	11.05.2010	24	115(E)	28.03.2012	37.	657(E)	25.08.2015
12	404(E)	13.05.2010	25	325(E)	26.04.2012			
13	413(E)	17.05.2010	26	941(E)	28.12.2012			